



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 90]

No. 90]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 25, 1978 चैत्र 4, 1900

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 25, 1978/CHAITRA 4, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1978

सीमा-शुल्क

सां० कां० नि० 183 (अ) — केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना मख्या 191-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 को अधिष्ठात करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक-हित में आवश्यक है —

- (क) नेपाल को निर्यात करने के प्रयोजनार्थ किसी दूसरे देश से भारत में आयात किये गये सभी माल पर, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से,
- (ख) विदेश को निर्यात करने के प्रयोजन के लिये नेपाल से भारत में आयात किये गये समस्त माल पर, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से,
- (ग) विदेश को निर्यात करने के प्रयोजन से नेपाल से भारत में आयात किये गये समस्त माल पर और नेपाल को निर्यात

करने के प्रयोजन के लिये विदेश से भारत में आयात किये गये समस्त माल पर, जब उसे यथास्थिति विदेश को या नेपाल को निर्यात किया जाये, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की द्वितीय अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से छूट देती है।

[सं० 68-सीमाशुल्क/का० सं० 552/58/78-एस० सी०-1]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 25th March, 1978

CUSTOMS

G.S.R. 183(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 191-Customs, dated the 2nd August, 1976, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts—

- (a) all goods when imported into India from a foreign country for the purpose of export to Nepal, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act ;
- (b) all goods when imported into India from Nepal for the purpose of export to a foreign country, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act ;

- (c) all goods imported into India from Nepal for the purpose of export to a foreign country and all goods imported into India from a foreign country for the purpose of export to Nepal, when exported to the foreign country or, as the case may be, to Nepal, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 51 of 1975).

[No. 68-Customs/F. No. 552/58/78-L.C.I]

सीमा-शुल्क

सां. कां. निं. 184(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1978 के खण्ड 35 के उपखण्ड (4) के साथ पठित, जो खण्ड अन्तर्गत कर-संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के अनुसार विधि की शक्ति रखता है, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 54-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में,—

(क) क्रम सं. 72, 73, 74 और 75 तथा उनसे सम्बंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;

(ख) क्रम सं. 189 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“190. सं. 68-सीमा-शुल्क, तारीख 25 मार्च, 1978”

[सं. 69/सीमा-शुल्क कां. सं. 552/58/78-एल. सी. 1]

CUSTOMS

G.S.R. 184(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 35 of the Finance Bill, 1978, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 54-Customs, dated the 1st March, 1978, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification,—

(a) Serial Nos. 72, 73, 74 and 75 and the entries relating thereto shall be omitted ;

(b) after Serial No. 189 and the entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be inserted, namely :—

“190. No. 68-Customs, dated 25th March, 1978.”

[No. 69-Customs/F. No. 552/58/78-L.C.I]

सीमा-शुल्क

सां. कां. निं. 185(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं. 192-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 को अधिकांश करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, निम्नलिखित साल की, यदि उनका पूर्णतः उत्पादन नेपाल में हुआ हो और वे भारत में नेपाल से आयात किये गये हों, सीमा-

शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से छूट देती है।

1. कृषि, बागवानी और वन उत्पाद तथा ऐसे खनिज जिनका प्रसंस्करण न किया गया हो।
2. बाबल, दालें और आटा।
3. इमारती लकड़ी।
4. जागरी (गुड़ और शक्कर)।
5. पशु पक्षी और मछली।
6. मधुमक्खी, मधु भोम और शहद।
7. कच्चा ऊन, बकरी के बाल और हड्डियाँ जो अस्थि चूर्ण बनाने में प्रयोग किये जाते हैं।
8. दुग्ध, दुग्ध के घर में बने उत्पाद और अण्डे।
9. धानी से उत्पादित तेल और खली।
10. आयुर्वेदिक तथा हर्बल औषधियाँ।
11. ग्रामीण कारीगरी द्वारा उत्पादित वस्तुएँ, जो मुख्यतः गांवों में उपयोग में लाई जाती हैं।

[सं. 70-सीमाशुल्क/कां. सं. 552/58/78-एल. सी. 1]

CUSTOMS

G.S.R. 185(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 192-Customs dated the 2nd August, 1976, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the following goods when wholly produced in Nepal and imported into India from Nepal, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), namely :—

1. Agricultural, horticultural and forest produce and minerals which have not undergone any processing.
2. Rice, pulses and flour.
3. Timber.
4. Jaggery (gur and shakkar).
5. Animals, birds and fish.
6. Bees, bees wax and honey.
7. Raw wool, goat hair and bones as are used in the manufacture of bone-meal.
8. Milk, home made products of milk and eggs.
9. Ghani-produced oil and oil cakes.
10. Ayurvedic and herbal medicines.
11. Articles produced by village artisans as are mainly used in villages.

[No. 70-Customs/F. No. 552/58/78-L.C.I]

सीमा-शुल्क

सां. कां. निं. 186(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचनाओं सं. 193-सीमाशुल्क और सं. 194-सीमाशुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976 को अधिकांश करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नेपाल में विनिर्मित ऐसे निम्नलिखित साल को जिसमें कम से कम 80 प्रतिशत नेपाली श्रमवा नेपाली और भारतीय सामग्री समाविष्ट हो, जब वे नेपाल से भारत में आयात की जायें, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से छूट देती है, अर्थात् :—

1. अनाज और आटे की निमित्तियाँ :

(क) बिल्कुट, पावरोटी, केक, पेस्टरी और अन्य बेकरी उत्पाद

- (ख) सेबई और चौड़ी सेबई
(ग) कार्नाफेक्स
(घ) माल्ट
2. वनस्पति और तेल निष्कर्ष :
(क) बिलायक निष्कर्षित वनस्पति तेल
(ख) वाष्पशील तेल और सुगन्धियां
(ग) वनस्पति घी
3. वनस्पति उत्पाद :
(क) डिम्बाबन्ध सज्जियां
(ख) डिम्बाबन्ध सूप
(ग) बटनी और भचार (डिम्बाबन्ध और बोतलों में)
(घ) स्टार्च और ग्लूकोस
4. फल उत्पाद :
(क) फल के रस, शर्बत और स्क्वाश
(ख) जैम, मार्मलेड और फ्रूट जेली
(ग) बोतलबन्ध या डिम्बाबन्ध फल
(घ) अन्य दिन में या पैकेटों में बन्द फल निमित्तियां
5. डेयरी उत्पाद :
(क) डिम्बाबन्ध घी
(ख) मक्खन (पैकेज)
(ग) पनीर
6. मांस निमित्तियां :
(क) टिन में और पैकेटों में बन्द मांस और मांस निमित्तियां
(ख) मांस का सत
7. चीनी और चीनी निमित्तियां :
(क) चीनी
(ख) चीनी की मिश्री
(ग) शर्बत
(घ) चीनी-मिष्ठान (कन्फेक्शनरी) और अन्य चीनी की निमित्तियां
8. पेय पदार्थ :
मसी गैर-अल्कोहॉलिक पेय, बर्क और आइसक्रीम
9. मिष्ठान (कन्फेक्शनरी)
मिष्ठान, जिसमें आकलित सम्मिलित नहीं है
10. तम्बाकू उत्पाद :
(क) सिगार
(ख) बीड़ी
(ग) जर्दा
(घ) अन्य विनिमित्त तम्बाकू
11. बानकी उत्पाद :
(क) काष्ठ फर्नीचर
(ख) प्लाईवुड
(ग) रोजिन और तारपीन
(घ) कत्था और टैनिन
(ङ) बांस उत्पाद
(च) सजावटी लकड़ी के फर्ग
(छ) चिप-बोर्ड, और पारटिकल बोर्ड
(ज) कार्ड बोर्ड और अन्य गते
(झ) कागज
12. घास और तृण उत्पाद :
(क) बफती (स्ट्रॉ बोर्ड)
(ख) अन्य घास और तृण उत्पाद
13. चर्म और चर्म उत्पाद :
(क) शोधित चमड़ा और खाल
(ख) जूते
(ग) पर्स
(घ) बैगे
(ङ) अन्य चर्म उत्पाद

14. खनिज उत्पाद :

- (क) चूना
(ख) ईंटें, टाइले, पाइप और मुदा, पत्थरों और सीमेंट में बनी अन्य निर्माण सामग्री
(ग) मिट्टी के बर्तन
(घ) चॉक और चॉक चूण
(ङ) स्लेट
(च) मैग्नेसाइट
(छ) संगमरमर
15. हस्तशिल्प और कलात्मक वस्तुएं
16. पशु-प्राहार और चारे
17. काँच और काँच की वस्तुएं :
काँच की बोतलें और गिलास
18. साबुन :
कपड़े धोने और नहाने का साबुन
19. पटसन का सामान :
(क) हेसियन
(ख) मैकिंग
(ग) दुवाइन
(घ) अन्य पटसन-उत्पाद
20. माचिस
21. धातु-उत्पाद (फर्नीचर और केबिनेट)
22. वस्त्र :
तैयार वस्त्र (सूती)
23. प्रकीर्ण
(क) निस्सारित कैल्सियम कार्बोनेट
(ख) दन्त-पेस्ट

[सं. 71-मोमाशुल्क/का० सं० 552/58/78-एल० सी० 1]

CUSTOMS

G.S.R. 186(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notifications of Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 193-Customs and No. 194-Customs, dated the 2nd August, 1976, the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts the following goods, manufactured in Nepal and containing not less than eighty per cent of Nepalese materials or Nepalese and Indian materials when imported into India from Nepal, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), namely :—

1. Cereal and Flour Preparations

- (a) Biscuits, loaves, cakes, pastry and other bakery products
(b) Noodles and spaghetti
(c) Cornflakes
(d) Malt

2. Vegetable Oil and Oil Extracts

- (a) Solvent extracted vegetable oils
(b) Essential oils and perfumes
(c) Vegetable ghee

3. Vegetable Products

- (a) Canned vegetables
(b) Canned soup
(c) Chutney and pickles (canned and bottled)
(d) Starch and glucose

4. Fruit Products

- (a) Fruit juices, syrups and squashes
(b) Jam, marmalade and fruit jellies
(c) Bottled or canned fruits
(d) Other tinned or packeted fruit preparations

5. *Dairy Products*
 - (a) Ghee canned
 - (b) Butter (package)
 - (c) Cheese
6. *Meat Preparations*
 - (a) Tinned and packed meat and meat preparations
 - (b) Meat essence
7. *Sugar and Sugar Preparations*
 - (a) Sugar
 - (b) Sugar-candy
 - (c) Syrup
 - (d) Sugar confectionery and other sugar preparations
8. *Beverages*

All non-alcoholic beverages, ice and ice cream
9. *Confectionery*

Confectionery, excluding chocolate
10. *Tobacco Products*
 - (a) Cigar
 - (b) Bidi
 - (c) Zarda
 - (d) Other manufactured tobacco
11. *Forestry Products*
 - (a) Wooden Furniture
 - (b) Plywood
 - (c) Rosin and turpentine
 - (d) Catechu and tannin
 - (e) Bamboo products
 - (f) Wooden parquets
 - (g) Chip-board and particle-board
 - (h) Card-board and other board
 - (i) Paper
12. *Grass and Straw Products*
 - (a) Straw board
 - (b) Other grass and straw products
13. *Leather and Leather Products*
 - (a) Tanned skin and hides
 - (b) Shoes
 - (c) Purses
 - (d) Bags
 - (e) Other leather products
14. *Produce of Mining*
 - (a) Lime
 - (b) Bricks, tiles, pipes and other building materials made of clay, stones and cement
 - (c) Pottery
 - (d) Chalks and chalk powder
 - (e) Slate
 - (f) Magnesite
 - (g) Marbles

15. *Handicrafts and Artistic Goods*
16. *Cattle Feed and Fodders*
17. *Glass and Glass Goods*

Glass bottles and tumblers
18. *Soap*

Laundry and toilet soap
19. *Jute Products*
 - (a) Hessian
 - (b) Sacking
 - (c) Twine
 - (d) Other jute products
20. *Matches*
21. *Metal Products (furnitures and cabinet)*
22. *Textiles*

Readymade garments (cotton)
23. *Miscellaneous*
 - (a) Precipitated calcium carbonate
 - (b) Tooth paste

[No. 71-Customs/F. No. 552/58/78-LCH]

सीमा-शुल्क

सां. कां. निं. 187(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं. 235-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 को विखण्डित करती है।

[सं. 72-सीमाशुल्क/कां. सं. 552/58/78-एन. सी. 1]

एन० कृष्णामूर्ति, अध्वर सचिव

CUSTOMS

G.S.R. 187(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is in the public interest so to do, hereby, rescinds the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 235-Customs, dated the 2nd August, 1976.

[No. 72-Customs/F No. 552/58/78-LCH]

N. KRISHNAMURTHY, Under Secy.